

HIN1A05a – Fiche d'exercices N° 2 – Transcription

Exercice 1

- तुम कौन हो ? सच बताओ।
- बताऊँ। मैं हकीकत नहीं हूँ, तुम्हारे दिमाग का वहम हूँ। आदमी कितना बेवकूफ़ है।

Exercice 2

- तो फिर इस काम को जल्दी अंजाम दे दो।

Exercice 3

- अपनी पिस्तौल वापस लीजिए कप्तान साहब। आज से हमारी दोस्ती ख़तम।

Exercice 4

- घर वापस आ जाओ भैया, please भैया घर वापस आ जाओ। घर वापस आ जाओ भैया।

Exercice 5

- अब तुम पृथ्वी पर नहीं हो। अब तुम पन्दोरा पर हो। लेडीज़ एंड जंटलमन इस बात को हर पल हर सेकंड अच्छी तरह से याद रखना ।

Exercice 6

- चल, निकल।

Exercice 7

- जेक उठो। जेक उठो।
- हे रुको। रुक जाओ। वापस जाओ, रुको।
- ज़रा यह देखिए बाँस।
- [...]
- यह तस्वीर दिखाओ। वह वाली। इसे बड़ा करो। थोड़ा साफ़ दिखाओ। साला कमीना।

Exercice 8

- ठीक है, लिखना शुरू करो।

Exercice 9

- Linguini, you are fired! अभी इसी वक़्त निकल जा यहाँ से। एक कस्टॉमर को शेफ़ से मिलना है।

Exercice 10

- अब बताओ, डेड बॉडि कहाँ है?
- डेड बॉडि ऊपर है। आप मेरे पीछे आइए।

Exercice 11

- तुम मुझे इस तरह मत देखो।

Exercice 12

- आप फिर से लेक्चर शुरू मत कीजिए प्लीज़।

Exercice 13

- बस, तुम लोग बाहर बैठो।

Exercise 14

- आँखें खोल। नाराज़ है मुझसे। न बेटा न, नाराज़ मत हो। आँखें खोल बेटा, कुछ तो बोल सुहाणी।

Exercise 15

- सीट बेल्ट बाँध लो, प्लीज़।

Exercise 16

- टाइम से आ गया। चाय यहाँ रख। बैठ, बैठ कुर्सी पर। यह शर्ट उतार। मंजू, तौलिया देना। अरे शर्ट उतार।

Exercise 17

- छे नंबर का ओर्डर ले जाओ।

Exercise 18

- चल, अपनी आँखें बंद कर। ए। खोलना मत, खोलना मत, खोलना मत। अब खोल।

- शादी की साड़ी।

Exercise 19

- माफ़ कीजिए।

- कोई बात नहीं। आगे बताइए।

Exercise 20

- रिलाक्स यार। आज चाइना टाउन की सिलवर जुबिली का सेलेब्रेशन है। वहाँ जाइए, नाचिए, गाइए, इनजॉइ कीजिए।